

## पटना, दिनांक 18.12.2016 को आशियाना नगर स्थित पार्क के कार्यक्रम का विस्तृत रिपोर्ट :-

दिनांक 18.12.2016 को सुबह 7:30 बजे पटना के आशियाना नगर स्थित पार्क में दधीचि देह दान समिति की ओर से जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। दधीचि देह दान समिति ने शहर के सभी पार्कों में सुबह टहलने वालों एवं शहरवासियों के बीच देह दान / अंग दान के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में यह तीसरा कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने सिरकत किया। कुल 3 लोगों ने अंगदान / देहदान करने की इच्छा जाहिर करते हुए फार्म भरा। आगन्तुकों में से 29 लोगों ने परिचय पत्र फार्म भरा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दधीचि देह दान समिति के अध्यक्ष एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व उपनेता श्री गंगा प्रसाद ने कहा कि आज समाज को अंग दान / देह दान की जरूरत है। मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु मृत शरीर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोगों में दृष्टिहीनता की बिमारी होने पर प्रत्यारोपण हेतु आँख उपलब्ध नहीं होता है।

देश के कई राज्य इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। बिहार के लोगों में भी अन्य राज्यों की भांति अंगदान के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। श्री गंगा प्रसाद ने लोगों से चक्षु दान करने की अपील की और कहा कि आई० जी० आई० एम० एस० में चक्षु बैंक खुल चुका है और आँख प्रत्यारोपण की भी व्यवस्था है। दधीचि देह दान समिति के सदस्य एवं दीघा विधान सभा क्षेत्र के विधायक डॉ० संजीव चौरसिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शरीर नश्वर है। मृत्यु के उपरान्त भी आपका शरीर यदि समाज के काम आ सके तो इससे बड़ा पुनीत कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तक आई० जी० आई० एम० एस० में 100 से ऊपर लोगों में आँख प्रत्यारोपित किया जा चुका है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के महामंत्री श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि अब बिहारवासियों को आँख दान या आँख प्रत्यारोपण के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम में दधीचि देह दान समिति की ओर से श्री प्रदीप चौरसिया, डॉ० एम० रहमान, श्रीमती अमृता भूषण, डॉ० मनोज संढवार आदि भी उपस्थित थे।